

वित्तीय स्थिति अच्छी बनाए रखने का तरीका जानें

जानें कि आपका वित्तीय सफर कहां तक पहुंचा है. व्यक्तिगत स्कोर और सुझाव पाने के लिए एक छोटा आकलन करें. आप अलग-अलग विषयों, फॉर्मेट और भाषाओं में कई तरह के शैक्षणिक संसाधनों एक्सेस कर सकते हैं.

वित्तीय चिंताएं अक्सर तनावपूर्ण और समय लेने वाली होती हैं. कृपया इस गाइड का इस्तेमाल करके, Fidelity के साथ मिलकर आपके नियोक्ता द्वारा आपके लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों के बारे में जानें. ये फ़ाइनेंशियल वेलनेस प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं.



Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है.

© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।

1232122.1.0

Fidelity®

अपनी मौजूदा स्थिति और अगली कार्रवाई के बारे में जानें

इसे करना आसान है. अपने वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ आसान सवालों के जवाब देने के लिए 10 मिनट का समय लें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति कैसी है:

- बजट तय करना
- ऋण को मैनेज करना और घटाना
- बचत करना
- अपने फ़ाइनेंस की सुरक्षा करना

ध्यान दें: गुमनाम और स्वैच्छिक रूप से शामिल हुआ जा सकता है

कई विषयों के बारे में सीखने के लिए उनसे जुड़े कॉन्टेंट को एक्सेस करें...

- अपने बजट को मैनेज करना
- ऋण से निपटना
- अपनी बचत बढ़ाना
- अपने फ़ाइनेंस की सुरक्षा करना
- जीवन की घटनाएं

...और कई तरह के फ़ॉर्मेट

- जल्दी पढ़ने के सुझाव
- लंबे और पूरी जानकारी देने वाले लेख
- इंटरैक्टिव टूल और ट्रेकर्स
- पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो

आप कई भाषाओं में और कई एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ हमारे संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए, किसी मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं

संसाधनों का इस्तेमाल करने का तरीका

- चरण 1 – अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें ताकि आपको आपकी स्थिति और मुख्य अवसरों का पता चल सके. आने वाले समय में रेफ़रंस देखने के लिए, नतीजे का पेज डाउनलोड करना न भूलें
- चरण 2 – प्रासंगिक शैक्षिक कॉन्टेंट एक्सेस करने के लिए अपने मूल्यांकन के परिणाम वाले पेज पर दिए गए लिंक फ़ॉलो करें
- चरण 3 – काम के अन्य लेख, टूल और वीडियो खोजने के लिए शैक्षिक सामग्री साइट को बुकमार्क करें और ब्राउज़ करें
- चरण 4 – आगे होने वाले लाइव वेबिनार के लिए पंजीकरण करें (या रिकॉर्डिंग देखें) – नीचे दिए गए निर्देश देखें.
- चरण 5 – समय-समय पर अपने फ़ाइनेंस का आकलन करें (उदाहरण के लिए हर छह महीने में)

लाइव वेबिनार के लिए पंजीकरण करें!

अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने से जुड़े सुझाव पाने के लिए [रिकॉर्डिंग एक्सेस करें और लाइव वेबिनार में हिस्सा लेने](#) के लिए रजिस्टर करें

एक्सेस कोड: GlobalFWC2025



Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है.

© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।

1232122.1.0

Fidelity®

अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें – लैंडिंग पेज

चरण

1. कृपया अपनी भाषा चुनें
2. साइटों के बारे में जानें, अपने नियोक्ता के किसी भी मैसेज को पढ़ें और वेबिनार के लिए पंजीकरण करें
3. साइट की नीतियां पढ़ने के लिए क्लिक करें और कुकी चुनें
4. अपने देश का चुनें
5. आकलन शुरू करने के लिए क्लिक करें




Select your language
English

Financial wellness checkup

Welcome to your financial wellness checkup

It's easy to do. Take five minutes to answer a few simple questions about your finances and you'll find out how you are doing in:

- Being able to budget
- Managing and reducing debt
- Building savings
- Protecting your finances

You'll then get ideas, suggestions and steps you can take to improve your financial fitness.

Also, be sure to [register](#) (password GlobalFWC2025) for upcoming live webinars across various financial topics, and to access the archive of prior webinar recordings. (Live webinars and recordings will be in English only, although during the live webinars you can enable translated captions).

We're excited to help you build your financial wellness. Let's get started!

Language: English

*Required

The country/region I reside in is *

Select Country/Region of R...

Start Survey

More information

Your participation is on a voluntary basis; your employer (if applicable) does not require you to take this survey. Your individual results are anonymous and confidential – they won't be shared with your employer (if applicable) in a way that can identify you. They can only see the aggregated results from everyone who takes part.

If you need to go back to change an answer to a question, click the back button at the bottom of the page. Once you begin the assessment, you will need to finish it to receive your results. You will not be able to save your progress and return later, although you can download a copy of your results page at the end for future reference.

The [Privacy Policy](#) outlines how your data will be collected, protected and used. The [Terms of Use](#) govern your use of this website and other Fidelity websites in this financial experience. By clicking onto the next page, you are acknowledging and consenting to these policies.

Fidelity Workplace Consulting's Global Financial Wellness Experience uses cookies to operate this site, improve your experience, enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. By clicking "Accept", you agree that we and our service providers may store and access cookies on your device. You can read more about cookies in our [Cookie Policy](#).

Accept Decline

FideliTy दबारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यहू दू गैड जानकरी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकरी शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जड़ी जरूरतों के मताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है।
© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।
1232122.1.0

Fidelity®

अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें – मेरे बारे में जानकारी

चरण

1. ड्रॉप-डाउन, बॉक्स और रेडियो बटन का इस्तेमाल करके गुमनाम रूप से सभी सवालों के जवाब दें
2. ध्यान दें: ये सवाल वैकल्पिक हैं; आप “मुझे नहीं बताना” चुन सकते हैं
3. अगले सेक्शन पर जारी रखें
4. अगर आपने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, तो आपको (लाल बॉक्स के माध्यम से) आगे बढ़ने से पहले छूटे हुए सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाएगा

About meBudgetingDebtSavingsProtection

▼ About me

Please answer all questions before continuing.

How do you feel about your household's financial situation in general?

Select...1

My age (in years) is

Select...2

My gender is

Prefer not to say2

My regular monthly income is about
Include regular monthly pre-tax base income, earnings and allowances in units of local currency. Please enter 0 if you prefer not to say.

AFN

My other annual income is about
Include other non-regular pre-tax income such as annual bonus, incentives and 13/14th month pay in units of local currency. Please enter 0 if you prefer not to say.

AFN

Your total annual income entered is
If the total annual income figure shown is not correct, please re-enter your monthly and annual income

What is your role?

Select...4

Do you have anyone that is financially dependent on you? (Select all that apply)
This can apply to those either living in the home or living elsewhere

☐ Financial dependent(s) under 18

☐ Financial dependent(s) between 18-65

☐ Financial dependent(s) over 65

☐ No financial dependents

Continue to Budgeting3

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है।
© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।
1232122.1.0

Fidelity®

अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें – बजटिंग, ऋण, बचत, सुरक्षा

चरण

1. ड्रॉप-डाउन, बॉक्स और रेडियो बटन का इस्तेमाल करके गुमनाम रूप से सभी सवालियों के जवाब दें
2. अगले सेक्शन पर जारी रखें
3. जवाबों की समीक्षा करने और उन्हें अपडेट करने के लिए पिछले सेक्शन पर फिर से जाएं
4. 'सुरक्षा' सेक्शन के अंत में, सबमिट करने के लिए "समाप्त करें और गणना करें" पर क्लिक करें. ध्यान दें, इसके बाद आप जवाबों को नहीं बदल सकते

> About me

3

▼ Budgeting

Please answer all questions before continuing.

Overall, how do you feel about your household's expenses in comparison to your income?

Select...

1

How do you keep track of your monthly household expenses?

Select...

To what extent does your household live within its means?

Select...

How often do you pay all of your household's bills on time?

Select...

How confident are you in the ability to budget for your household?

Select...

Continue to Debt

2

How confident are you in putting in place adequate financial protection plans for your family?

Extremely confident

Finish and Calculate

4

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है.

© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।

1232122.1.0

Fidelity

अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें – नतीजे वाला पेज

चरण

1. नतीजे का यह पेज डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें, ताकि आने वाले समय में रेफर किया जा सके
2. अपने स्कोर और मुख्य मैसेज देखें
3. आपके सवालों के जवाब के आधार पर, आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए ये तीन मुख्य सुझाव हैं
4. इनमें से हर सुझाव में एक लिंक शामिल है, जो आपको इस विषय के बारे में सिखाने से जुड़े किसी कॉन्टेंट पर ले जाएगा



Your financial wellness results

Download a copy of your results here. [Download](#)

1

2 Total—66 out of 100

You're confident about your finances and you're doing OK, with some key areas to take action to improve outcomes



24 out of 25

Budgeting

Your budget looks in good shape



17 out of 25

Debt

Your debt situation needs some attention



16 out of 25

Savings

Your savings need some attention



9 out of 25

Protection

Think about reviewing how to protect your finances

Here are some suggestions for improving your financial wellness

3



START SAVING FOR AN EMERGENCY / RAINY DAY

Putting aside a little at a time can be a lifeline in case of a financial crisis.

[Get started](#)



GET LIFE INSURANCE

Make sure your loved ones will be financially protected should something happen to you.

[Explore options](#)



PAY YOUR BILLS ON TIME

Prevent late fees and further debt accumulating, which can also cause damage to your creditworthiness.

[Learn more](#)

4

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है।

© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।

1232122.1.0

Fidelity

चरण

1. कृपया अपनी भाषा चुनें
2. लेख पढ़ें और उसकी मुख्य बातों का ध्यान रखें
3. सीखने से जुड़ा अन्य कॉन्टेंट एक्सेस करें
4. साइट के अन्य क्षेत्रों को एक्सेस करने के लिए नेविगेशन रिबन का इस्तेमाल करें



1

Select your language English

4 Home | Quick money tips | Make your best financial decisions | Life events

Save for a rainy day

Life is full of surprises; be ready by saving for an emergency.

To cope with unexpected expenses such as house or car repairs, set aside some money. It's okay to start small. Save just a little each week. Over time, aim to build up enough to cover 3 - 6 months of essential expenses, including housing, food, transport and childcare.

What should you know?



2

Treat it like a bill.
Fund your emergency savings account regularly – as often as you pay bills.



Keep it separate.
Keep it in a separate account that's easy to access – such as a savings account.



Set it aside.
Use this account only for true emergencies, like critical home / car repairs, or to help if you need to take time away from work.



3

Learn more
How to save for a rainy day

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है।
© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।
1232122.1.0

Fidelity®

चरण

1. यहां फ्रीचर किया गया कॉन्टेंट हाइलाइट किया गया है, जिसमें साइट पर हाल ही में जोड़े गए अंश भी शामिल हैं
2. अलग-अलग विषयों पर पहले से रिकॉर्ड किए गए पांच वेबिनार की सीरीज़ में पहला वेबिनार देखें
3. कॉन्टेंट साइट के अन्य क्षेत्रों को एक्सेस करें (पैसें से जुड़ी छोटी सी सलाह, अपने बेहतरीन वित्तीय निर्णय लें, जीवन की घटनाएं)



Select your language English

[Home](#) | [Quick money tips](#) | [Make your best financial decisions](#) | [Life events](#)

Power up your finances

Get tips and tools for staying on top of life's money matters.

Join one of our live webinars

Register to join one of our upcoming live webinars across various financial wellness topics, with an opportunity to have your questions answered live. You'll also find an archive of prior live webinar recordings. The site password is GlobalFWC2025.

NEW Good vs. bad debt: how to tell the difference

Debt can be your ally or your enemy.

1

NEW The debt avalanche method vs. the debt snowball method

Which way to pay off debt is right for you?

Introduction to financial wellness

Make smart financial decisions by developing good habits.



2



Quick money tips

Get some quick tips to help you manage across all areas of your finances.

3

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है।
© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।
1232122.1.0

Fidelity®

सीखाने वाला कॉन्टेंट – पैसों से जुड़ी छोटी सी सलाह, अपने बेहतरीन वित्तीय निर्णय लें, जीवन की घटना

चरण

1. रुचि या प्रासंगिकता के अन्य संसाधनों को खोजने के लिए सूचियों का इस्तेमाल करें
2. सीखाने वाला कॉन्टेंट कई तरह का है और इसमें लेख के कॉन्टेंट के अलावा वीडियो, टूल और ट्रैकर, और किताब पढ़ने की सूचियां शामिल हैं

Make your best financial decisions

Ways to make the most of your money.

General

Discover ways to improve your financial wellness.



Ten steps to financial wellness
Some tips to help you stay in control of your finances.



Three steps to financial wellness from your twenties to your sixties
Tips to improve your finances at any age.



Book club and online resources
A list of books and other resources that can help you in your financial wellness journey.



Financial wellness webinar
Understanding the four pillars to achieving financial wellness.

Webinar Club

Join one of our upcoming live webinars.



Webinar registration and recorded webinar archive
Register to join one of our upcoming live webinars across various financial wellness topics, with an opportunity to have your questions answered live. You'll also find an archive of prior live webinar recordings. (Live webinars and recordings will be in English only, although during the live webinars you can enable translated captions). The site password is GlobalFWC2025.

Budgeting

Organise your paycheck to make room for the things you want.



A simple three-step approach to saving and spending
Discover an easier way to approach managing your money using three simple categories.



Managing your budget through difficult times
Understanding your expenses and sources of income can go a long way to alleviating stress.



Resources available to replace lost income during a crisis
Major disasters can seriously impact your cash flow. Here are four options for dealing with lost income.



Budgeting activity tracker sheet
Track your spending to learn how much money you could find to save each month.

Budgeting activity tracker

Track your spending to learn how much money you could find to save each month.

Finding extra money to save becomes easier when you know exactly what you're spending each month. As a rule of thumb, your essential expenses (things you need to have) should not exceed 50% of your take-home pay. See how you're doing by filling out your average monthly expenses and income below (in local currency).

ANNUAL HOUSEHOLD INCOME

MONTHLY HOUSEHOLD TAKE-HOME PAY

MONTHLY ESSENTIAL EXPENSES (THINGS YOU NEED TO HAVE)

Tip: You may want to review bank and credit card statements.

Housing

Mortgage

Rent

Property/Council Tax

Home Insurance

Electricity

Water

Gas

Internet / TV

Phone / Mobile

Other

HOUSING SUBTOTAL

Groceries

Food

Other

FOOD SUBTOTAL

Healthcare

Insurance Premiums

Prescriptions

Excess

Other

HEALTHCARE SUBTOTAL

Transport

Car Loan or Lease Payment

Car Insurance

Registration / Tax

Routine Maintenance

Petrol

Taxis / Buses / Subway etc.

Other

TRANSPORT SUBTOTAL

Debt & Monthly Obligations

Credit Card Debt (including payment plan)

Student Loans

Loans, Taxes, Borrowing

Continue to next page

This information is intended to be educational and is not tailored to the investment needs of any specific investor. © 2024 FMR LLC. All rights reserved. 09/03/2024 1.0

2

Fidelity

Global Financial Wellness

Book Club and Online Resources
Club de lecture et Ressources en ligne / Club de lectura y Recursos en línea

Important note:
The books and other resources included below are not affiliated with Fidelity and their authors are solely responsible for the information and/or services they provide. Fidelity disclaims any liability arising from your use of such information and/or services.

Country Pays/Pais	Book Resources Ressources de livres/Recursos del libro	Online Resources Ressources en ligne/Recursos en línea
Australia	- The Barefoot Investor by Scott Pape - Sort Your Money Out: and Get Invested by Glen James	- Australian Government - various resources - Government of South Australia - Financial wellbeing - Australian Government - Financial wellbeing - Financial Basics Foundation
Belgium Belgie / Belgique / Belgien	- Personal Finance met Thomas Guenter by Thomas Guenter - De 100 kapitaal vragen van Paul D'Hoore: over mensen en geld by Paul D'Hoore	Refer to the global section for additional resources.
Brazil / Brasil	- A Psicologia do Dinheiro by Morgan Housel - Me Poupe! - 10 passos para nunca mais falar dinheiro no seu bolso by Nathalia Arcuri - Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho by Thiago Nigro - Os segredos da mente milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas by T. Harv Eker	Refer to the global section for additional resources. Para saber sobre outros recursos, consulte a seção global.
Canada	The Rule of 30: A Better Way to Save for Retirement by Frederick Vettesse	Government of Canada - Financial literacy resources

Savings goal activity tracker

Track your savings goals to learn how much money you'd want to set aside to achieve your goals. Be sure to include short-term goals (for example, a holiday or car) and long-term goals (for example, a house or retirement) so that you get the full picture of what you may need to save each month to achieve your goals. Save a copy of this to your device so you can refer to it and update it regularly.

Savings Goal Name	Goal Amount* (Local Currency)	By When* Years	By When* Months	Current Savings Balance* (Local Currency)	Estimated Annual Interest / Return Rate*	Estimated Monthly Contribution (Local Currency)
Example: Wedding	10,000.00	1	6	1,000.00	4.00%	483.00
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
					0.00%	
SAVINGS GOAL TOTALS	0.00			0.00		0.00

Note: All numerical entries must be greater than or equal to zero (0). If you don't know or cannot estimate the interest/return rate, input zero (0). If any interest is payable (or you achieve some positive investment return) then you may end up with more money than you anticipated by the time of your target date.
The asterisk (*) indicates a required field in order to calculate monthly contributions.
Once you have clarity on your total savings goals, look for ways to reduce your spending (without taking on debt) in order for you to save even more. Refer to the "Save for any goal" article for more information.

Fidelity does not provide legal or tax advice. The information herein is general in nature and should not be considered legal or tax advice. Consult an attorney or tax professional regarding your specific situation. Some content on these sites may not be applicable to your location or employer (if applicable).

Links to third-party web sites may be shared on this page. These sites are unaffiliated with Fidelity. Fidelity has not been involved in the preparation of the content supplied at the unaffiliated site and does not guarantee or assume any responsibility for its content.
This information is intended to be educational and is not tailored to the investment needs of any specific investor.
© 2024 FMR LLC. All rights reserved. 11/76560 1.0

Fidelity द्वारा कानूनी या टैक्स संबंधी सलाह प्रदान नहीं की जाती है। यह दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और इसे कानूनी या टैक्स सलाह नहीं समझ जाना चाहिए। अपनी विशिष्ट स्थिति के संबंध में किसी वकील या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श करें। यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी खास निवेशक की निवेश से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाया गया है।

सिर्फ प्लान स्पॉन्सर के इस्तेमाल के लिए है.
© 2025 FMR LLC. सर्वाधिकार सुरक्षित।
1232122.1.0

